

श्लोकसंख्या - 17

“सुखेन लभ्या दृघतः कृषीवर्ले रकृष्टपच्या इव सस्यसम्पदः।
 वितन्वति क्षेममर्देवमातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति॥”

शब्दार्थ → चिराय = दीर्घ (चिरकालम्) समय तक। तस्मिन् = उस (दुर्योधन) में।
 क्षेमम् = प्रजा का हित। वितन्वति = करती रहनी पर। अर्देवमातृकाः =
 वर्षा के जल पर ही आश्रित न रहनेवाले। कुरवः = कुरुदेश के निवासी।
 अकृष्टपच्याः = बिना जाती हुई भूमि पर (स्वयं पकनेवाली)।
 इव = के समान। कृषीवर्लेः = किसानों के द्वारा। सुखेन = सुख से
 (बिना महनत के)। लभ्याः = प्राप्त होनेवाली। सस्यसम्पदः = अन्न की
~~सम्पत्तियाँ~~ सम्पत्तियाँ। दृघतः = धारण करते हुए। चकासति =
 सुशोभित हो रहे हैं।

प्रसङ्ग - दुर्योधन जनता के पालन में पूर्णतः संलिप्त है। इनके
 प्रयत्नों से कुरुदेश संपन्न है। इसका निरूपण महाकवि
 भारति करते हैं -

सरलार्थ - ~~स~~ दीर्घकाल तक दुर्योधन के प्रजाका भला करती रहनी से
 सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर आश्रित न रहनेवाले कुरुदेश बिना
 जाती हुई भूमि पर पकनेवाली तथा किसानों के द्वारा सुख से प्राप्त
 होनेवाली सस्यसम्पदों को धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है।
 (अन्न की सम्पत्तियाँ)

व्याकरण भाग / टिप्पणी

वितन्वति = वि + √ तन् + शतृ, तस्मिन्।

अर्देवमातृकाः = देवः माता येषां देवमातृकाः,
 बहुव्रीहिसमासः।

न देवमातृकाः अर्देवमातृकाः, नञ् तत्पुरुषसमासः।

कुरवः = कुरु + अण्।

अकृष्टपच्याः = कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः,
 न कृष्टपच्या इति अकृष्टपच्याः नञ् तत्पुरुषसमासः।

28 मई 28 मई, 2020

पृष्ठसं०-2

कृषीवल्लः = कृषिः अस्ति एषाम् इति ।

कृषि + वल्लः ; तृतीया बहुवचनम् ।

लभ्याः = √ लभ् + यत्

सस्यसम्पदः = सस्यानां सम्पदः षष्ठीतत्पुरुषसमासः ।

द्वेषतः = √ धा + शतृ

चकासति = √ चकास् + लटलकारः प्रथमपुरुषस्य ।

अलंकार - प्रस्तुत की अप्रस्तुत के रूप में सौत्रावना होनी है
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्व के होने से वाच्योत्प्रेक्षा
अलंकार है।